



Date: 21/10/2024

To,
The Listing Compliance Department
BSE Limited,
P J Tower, Dalal Street,
Mumbai-400001
Scrip Code: 534809

The Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051
Symbol: PCJEWELLER

Sub.: Newspaper Publications


Dear Sir / Ma'am,

Please find enclosed herewith the newspaper publications made by the Company pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on October 21, 2024 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) regarding un-audited financial results of the Company for the quarter & six months ended September 30, 2024.

Kindly take the same on record.

Yours sincerely,
For **PC Jeweller Limited**

(VIJAY PANWAR)
Company Secretary



PC Jeweller Limited

Regd. Office : 2713, 3rd Floor, Bank Street, Karol Bagh, New Delhi-110005 Ph. : 011 - 49714971 Fax : 011 – 49714972

info@pcjeweller.com • www.pcjeweller.com • CIN : L36911DL2005PLC134929

INDIA AIMS TO ACHIEVE 500 GW OF GREEN ENERGY BY 2030

Solar imports to touch \$30-bn per yr

MUKESH JAGOTA
New Delhi, October 20

INDIA'S RENEWABLE ENERGY (RE) ambitions could drive the country's annual solar import bill up to \$30 billion from the current \$7 billion, with most imports coming from China, according to a report by the Global Trade Research Initiative (GTRI). As the world works towards decarbonisation, key countries need to collaborate to develop large-scale solar manufacturing facilities, the report suggests.

To achieve its goal of 500 GW of renewable energy by 2030, India needs to add 65 to 70 GW of capacity each year. This is an ambitious target, given that India added only 15 GW of solar capacity in 2023-24, while the US plans to add 32 GW in 2024.

Last financial year, India imported \$7 billion worth of solar equipment, with China supplying 62.6% of it. China controls 97% of the global polysilicon supply and 80% of

INDIA'S GLOBAL IMPORTS OF SOLAR CELLS/MODULES

Country	Solar Modules (\$ million-FY24)	Solar Cells (\$ million-FY24)	Total (\$ million-FY24)	% Country share
China	2,850.70	1,036	3,886.7	62.6
Vietnam	935.1	89.7	1,024.8	16.5
Malaysia	311.8	238	549.8	8.9
Thailand	248.8		248.8	4
Hong Kong	9.7	210.3	219.9	3.5
Singapore	1.1	97.2	98.3	1.6

Source: Ministry of Commerce data

solar module manufacturing, making it difficult for other countries to compete with China's lower prices. This dominance has resulted in an over-supplied market, which puts pressure on local manufacturing efforts in countries like India and the US.

"The US, India, EU and Japan may unite to establish global-scale solar-cell manufacturing facilities. While it may be costly initially, it is essential to break

free from China's dominance," said Ajay Srivastava, co-founder of GTRI and author of the report 'Global Solar Industry in China's Iron Grip'.

Although initiatives like the Production Linked Incentive (PLI) scheme aim to boost local manufacturing in India, their impact is limited due to a reliance on imported inputs. Around 90% of India's solar manufacturing involves assembling solar modules from

imported solar cells, adding only about 15% value locally. Few Indian companies produce solar cells at a commercial scale using imported polysilicon or wafers, which contributes 30-40% local value addition.

Developing a self-reliant solar manufacturing industry in India will require significant investment to build an integrated supply chain, especially in areas like polysilicon and wafer production. Without

these capabilities, India may continue to face high import costs and struggle to meet its renewable energy targets.

For India to produce solar cells from the ground up, it must start with silica refining, a process that involves costly and energy-intensive polysilicon production, requiring advanced technology.

This challenge is not unique to India. The US, EU and many other countries also rely on direct and indirect imports from China. In an effort to reduce dependency on Chinese imports, India has imposed a 40% duty on solar equipment imports. However, imports from Vietnam, Malaysia, and Thailand are exempt under the India-Asean Free Trade Agreement, provided they have 35% local value addition.

While the EU continues to import finished solar modules, India and the US are making efforts to develop local manufacturing capacity. However, local value addition remains low at around 15%.

Exchanges to conduct Diwali Muhurat trading on Nov 1

FE BUREAU
Mumbai, October 20

THE NATIONAL STOCK Exchange (NSE) and BSE will hold their annual Diwali Muhurat trading session on Friday, November 1, from 6 pm to 7 pm, marking the beginning of the Hindu calendar year, Samvat 2081.

While the stock market will be closed for trading on Diwali, the special one-hour Muhurat trading session will be open in the evening. A pre-opening session will be conducted from 5:45 pm to 6 pm, the exchanges said in separate circulars on Saturday. Muhurat session coincides

with Laxmi Pujan, which celebrates wealth and prosperity. Investors trade in this session to welcome good fortune and mark the beginning of Samvat 2081.

Historically, investors have seen positive returns, with the BSE Sensex closing higher in 13 of the last 17 special sessions.

Govt likely to raise posts of chief general managers in PSU banks

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, October 20

THE FINANCE MINISTRY is considering a proposal to raise the posts of chief general managers in public sector banks in view of their increasing business and profitability.

As per existing government guidelines, there can be one chief general manager (CGM) for four general managers in a public sector bank (PSB).

These guidelines were issued in 2019 and since then there has been marked improvement in performance of PSBs despite the pandemic, sources said.

Business of PSBs has witnessed significant growth and consequently they booked



As per existing guidelines, there can be one chief general manager for four general managers in a public sector bank

record profit, sources said, adding the department of financial services under the finance ministry is reviewing CGM positions for achieving the next level of growth by PSBs.

The decision to relax the guidelines would be taken after thorough examination and

considering the need for furthering their business expansion, sources said.

The CGM post was created in 2019, after the merger of 10 nationalised banks to four large lenders. CGMs act as an administrative and functional layer between the general manager and the executive director.

UCO Bank recovers ₹414 crore bad loans

UCO BANK HAS recovered ₹414 crore from 26 accounts through the NCLT mechanism during the second quarter of the current fiscal, an official said on Sunday. Of the recovered amount, ₹393 crore came from 14 accounts resolved, and ₹21 crore from 12 under-liquidation, he said.

"During the July-Sept quarter, ₹414 crore was recovered from resolution and liquidation combined. Recovery through the resolution process during the period was ₹393 crore, higher than the year-ago figure of ₹82 crore and the June quarter's ₹34 crore," a senior official said.

Form NO. INC-26
[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Before the Central Government Regional Director (Northern Region)
In the matter of Sub-Section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
and
In the matter of WATERWAYS LEISURE TOURISM PRIVATE LIMITED CIN: U63030DL2020PTC372580 having its registered office at "A-15, Second Floor, Hauz Khas, Delhi-110016" Petitioner
Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the annual general meeting held on 30th September 2024 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Maharashtra".
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, Delhi within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the application company at its registered office at the address mentioned below:
"A-15, Second Floor, Hauz Khas, Delhi-110016"
For and on behalf of
For Waterways Leisure Tourism Private Limited
Place: Delhi Aditya Gupta - Director
Date: 21.10.2024 DIN: 09581950

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

Unlimited Celebrations Unlimited Happiness

PSB FOR 555 DAYS FD ROI 8.10% p.a.	PSB APNA GHAR ROI 8.45% p.a.	PSB APNA VAHAN ROI 8.64% p.a.	PSB GST EASE LOAN (A MSME Loan Product) ROI 8.72% p.a.
--	--	---	---

Total Business Growth 8.40% | Total Advances Growth 11.14% | Retail Advances Growth 30.18% | MSME Advances Growth 11.31% | NET Interest Income 29.33%

Reviewed Un-audited Financial results for the Quarter/ Half Year ended 30th September, 2024

Particulars	Quarter ended 30.09.2024	Quarter ended 30.09.2023	Half Year ended 30.09.2024	Half Year ended 30.09.2023	Year ended 31.03.2024
	[Reviewed]	[Reviewed]	[Reviewed]	[Reviewed]	[Audited]
Operating Profit Rs. 458 Cr. (76.15%)	309786	267415	594388	516852	1091545
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	30731	29525	52053	52949	93698
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	30731	29525	52053	52949	93698
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	23959	18909	42109	34176	59542
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	Refer Note 2				
Paid up Equity Share Capital	677779	677779	677779	677779	677779
Reserves (excluding Revaluation Reserve)					
Securities Premium Account	313198	313198	313198	313198	313198
Net worth*	892067	723120	892067	723120	783578
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	263716	192042	263716	192042	243385
Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Debt Equity Ratio**	0.30	0.27	0.30	0.27	0.31
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
1. Basic :	0.35	0.28	0.62	0.50	0.88
2. Diluted:	0.35	0.28	0.62	0.50	0.88
Capital Redemption Reserve	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Debt Redemption Reserve	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Interest Service Coverage Ratio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Debt Service Coverage Ratio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* After considering the impact of valuing the Non-Interest bearing Recapitalization Bonds at Fair Value for the Quarter/Half Year ended 30.09.2023 and Year ended 31.03.2024.
** Total debts represent total borrowings of the Bank. Borrowings represent debts due for more than one year.

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Financial Results are available on Stock Exchange website (BSE: www.bseindia.com and NSE: www.nseindia.com) and website of the Bank (https://punjabandsindbank.co.in)
2. Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet applicable on banks.

For and on behalf of Board of Directors
Rajeeva EXECUTIVE DIRECTOR | Ravi Mehra EXECUTIVE DIRECTOR | Swarup Kumar Saha MANAGING DIRECTOR & CEO
Place : New Delhi Date : 19.10.2024
TOLL FREE NO.: 1800 419 8300
Do not share your Internet Banking details, such as, user ID/password or your credit card number/CVV/OTP with anyone, either over phone or through email.
Email : ho.customerexcellence@psb.co.in | Website : https://punjabandsindbank.co.in

Dalmia Bharat Limited
Sustainable Progress. Infinite Possibilities.
Unlocking the true potential of renewable energy

At Dalmia Bharat we are consciously building a sustainable energy future through investments in green and clean energy initiatives. As a committed member of RE100, we are dedicated to achieving 100% renewable electricity by 2030. Till date, Dalmia Bharat has signed long-term renewable power agreements totalling 278 MW under the Group Captive Arrangement. We are optimistic that these measures will lead to a better world by reducing Greenhouse Gas emissions and promoting sustainability. We are unlocking the true potential of Renewable Energy.

DALMIA BHARAT LIMITED
(CIN No: L14200TN2013PLC112346)
Regd. Office: Dalmiapuram - 621651, Distt. Tiruchirapalli (Tamil Nadu)
Phone 91 11 23465100 Website: www.dalmiabharat.com

Extract of the Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2024

Particulars	For the quarter ended			For the half year ended		
	30-09-24	30-06-24	30-09-23	30-09-24	30-09-23	31-03-24
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Consolidated financial results						
Total income from continuing operations	3,087	3,621	3,153	6,708	6,780	14,691
Profit before tax from continuing operations (after exceptional item & share of profit in joint ventures)	73	194	172	267	357	1,070
Profit for the period/year from continuing operations	49	145	124	194	268	854
Profit/(loss) for the period/year from discontinued operations	(6)	0	(1)	0	(1)	(1)
Net profit for the period/year after tax (continuing and discontinued operations)	43	145	123	194	267	853
Net profit for the period/year after tax and non-controlling interest	46	141	116	187	248	826
Total comprehensive income/(loss) for the period/year (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	431	790	282	1,221	457	925
Paid-up equity share capital - Face Value Rs. 2/- each	38	38	38	38	38	38
Other equity						16,359
Earnings per share from continuing operations (not annualised for the quarter)						
Basic (In Rupees)	2.46	7.50	6.33	9.96	13.28	44.11
Diluted (In Rupees)	2.46	7.50	6.33	9.96	13.28	44.10
Earnings per share from discontinued operations (not annualised for the quarter)						
Basic (In Rupees)	(0.01)	0.02	(0.03)	0.01	(0.05)	(0.06)
Diluted (In Rupees)	(0.01)	0.02	(0.04)	0.01	(0.06)	(0.07)
Earnings per share from continuing and discontinued operations (not annualised for the quarter)						
Basic (In Rupees)	2.45	7.52	6.30	9.97	13.23	44.05
Diluted (In Rupees)	2.45	7.52	6.29	9.97	13.22	44.03
Standalone financial results						
Total income from operations	29	34	33	63	68	130
Other income	12	99	85	111	94	115
Profit before tax	14	101	87	111	97	123
Profit after tax	10	96	83	108	92	112

Note: The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended 30-09-2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended 30-09-2024 are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.dalmiabharat.com

Place : New Delhi Date : 19th October, 2024
For and on behalf of the Board of Directors:
(Puneet Yadu Dalmia) Managing Director & CEO | (Goutam Dalmia) Managing Director
DIN : 00022633 | DIN : 00009758

